



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, सोमवार, प्रवसूबर 10, 1977/आश्विन 18, 1899
No 320] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 10 1977/ASVINA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 10th October 1977

G.S.R. 637(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called 'the Solvent-Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible Flour (Control) Amendment Order, 1977

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 4 of the Solvent-Extracted Oil Deoiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, for sub clause (7), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(7) The amounts specified under sub clause (5) shall be—

(i) deposited in the State Bank of India, Rail Bhavan Branch, New Delhi, to the account of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Civil Supplies & Cooperation, or

(ii) deposited in such other branch of the State Bank of India as may be notified by the Controller from time to time under the Receipt Head of Account 'Major Head "109"—Food and Nutrition—Other Receipts', or

(iii) payable by a crossed Demand Draft on any of the local banks at New Delhi/Delhi and drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Civil Supplies & Cooperation,

(1979)

and the receipt evidencing such deposit or, as the case may be, the Demand Draft shall accompany the application."

[No. 2-SEO(1)/76]

T BALAKRISHNAN, Jt Secy

नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक-निस्सारित तेल, तेलहीनकृत भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विलायक-निस्सारित तेल, तेलहीनकृत भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1977 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विलायक-निस्सारित तेल, तेलहीनकृत भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के खण्ड 4 में, उपखण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(7) उपखण्ड (5) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट रकम—

- (i) वेतन और लेखा अधिकारी, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय के खाने में भारतीय स्टेट बैंक, रेल भवन शाखा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी; या
- (ii) “मुख्य शीर्ष “109”—खाद्य और पोषण—अन्य प्राप्तियां” प्राप्ति लेखा शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक की अन्य ऐसी शाखा में, जो नियंत्रक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, जमा की जाएगी; या
- (iii) नई दिल्ली / दिल्ली में किसी स्थानीय बैंक पर कास मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा, जो वेतन और लेखा अधिकारी, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय के नाम से लिखा जाएगा, भुगतान होगी,

और, यथास्थिति, ऐसी जमा या मांगदेय ड्राफ्ट साक्षित करने वाली रसीद आवेदन के साथ संलग्न होगी।”

[संख्या 2-एस ई ओ (1) 76]

टी० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977